



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 2007/फाल्गुन 22, 1928

No. 264]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 2007/PHALGUNA 22, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2007

सं. 55 (आर ई-2006)/2004-2009

का.आ. 362 (अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के पैराग्राफ 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, निर्यात और आयात मर्चों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, 2004-2009 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-

1. निर्यात और आयात मर्चों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण 2004-2009 के अध्याय 1क की शर्त 16 (आयात नीति की सामान्य टिप्पणियाँ) को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

“16. एवियन एंफ्लूएंजा (हाइली पैथोजेनिक एवियन एंफ्लूएंजा और लो पैथोजेनिक एवियन एंफ्लूएंजा दोनों) को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित पशुधन और पशुधन उत्पादों का सभी देशों से भारत में आयात निषिद्ध होगा:-

- (i) कैद पक्षियों सहित घरेलू और वन्य पक्षी (कुक्कुट को छोड़कर);
- (ii) वन्य पक्षियों सहित एवियन प्रजातियों का असंसाधित मांस और मांस उत्पाद, (कुक्कुट के अलावा);
- (iii) घरेलू और वन्य पक्षियों का वीर्य।

इसके अलावा, केन्द्र सरकार ऐसे किसी अन्य देश से भी निम्नलिखित पशुधन और पशुधन उत्पादों का भारत में आयात निषिद्ध करती है जहाँ से एवियन एंफ्लूएंजा (हाइली पैथोजेनिक एवियन एंफ्लूएंजा और लो पैथोजेनिक एवियन एंफ्लूएंजा दोनों) की सूचना प्राप्त हुई है, नामतः :-

- (i) जीवित कुक्कुट;
- (ii) एक दिन के चूजे, बत्तखें, टर्की एवं अन्य नवजात एवियन प्रजातियाँ;
- (iii) वन्य पक्षियों सहित एवियन प्रजातियों का मांस और मांस उत्पाद;
- (iv) सेने वाले अंडे (हैचिंग एग्स);

- (v) अंडा और अंडा उत्पाद (विशिष्ट पैथोजेन मुक्त अण्डों के अलावा);
 - (vi) पंख;
 - (vii) जीवित सूअर और सूअर मांस के उत्पाद;
 - (viii) पैथोलॉजिकल सामग्री तथा पक्षियों के जैविकीय उत्पाद;
 - (ix) पशु आहार में उपयोग के लिए या कृषि या औद्योगिक उपयोग के लिए अभिन्न पशुजनित (पक्षियों से) उत्पाद।”
2. निषेध अगले आदेशों तक लागू रहेगा।
 3. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/विविध-77/ए एम 04/पी सी-1क]

भवानी सिंह मीना, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2007

No. 55 (RE-2006)/2004—2009

S.O. 362(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraph 2.1 of the Foreign Trade Policy—2004—2009, the Central Government hereby amends the ITC (HS) Classification of Export and Import Items 2004—2009 as under :—

1. Condition 16 of Chapter 1A (General Notes to Import Policy) of the ITC (HS) Classifications of Export and Import Items, 2004—2009 shall be amended to read as under :—

“16. Import into India of the following live-stock and live-stock products shall be prohibited from all countries, in view of Avian Influenza (both Highly Pathogenic Avian Influenza and Low Pathogenic Avian Influenza) :

- (i) domestic and wild birds including the captive birds (excluding poultry);
- (ii) unprocessed meat and meat products from Avian species including wild birds (except poultry);
- (iii) semen of domestic and wild birds.

Further, the Central Government hereby prohibits also the import into India from the countries reporting Avian Influenza (both Highly Pathogenic Avian Influenza and Low Pathogenic Avian Influenza), the following live-stock and live-stock products, namely :—

- (i) Live poultry;
- (ii) day old chicks, ducks, turkey and other newly hatched Avian species;
- (iii) meat and meat products from Avian species including wild birds;
- (iv) hatching eggs;
- (v) eggs and egg products (except Specific Pathogen Free eggs);
- (vi) feathers;
- (vii) live pig and pig meat products;
- (viii) pathological material and biological products from birds;
- (ix) product of animal origin (from birds) intended for use in animal feeding or for agricultural or industrial use.”

2. The prohibition shall be in force till further orders.

3. This issues in public interest.

[E. No. 01/89/180/Misc-77/AM 04/PC-1A]

BHAWANI SINGH MEENA, Director General of Foreign Trade
& ex-officio Addl. Secy.